

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 411]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 6 सितम्बर 2014—भाद्र 15, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2014

अधि. क्र. 29-एफ-1-30-2012-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 405 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, नीचे दी गई अनुसूची में यथा उल्लिखित क्षेत्रों को नगरपालिक निगम, भोपाल, जिला भोपाल की सीमाओं के भीतर सम्मिलित करते हैं, अर्थात्:—

अनुसूची—एक

नगरपालिक निगम, भोपाल की सीमा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों का क्षेत्रफल निम्नानुसार होगा:—

अनुक्रमांक	नगरीय क्षेत्र/ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किए जाने वाले ग्रामों का नाम (संपूर्ण राजस्व ग्राम)	तहसील	घोषित किए जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नगर पालिका कोलार का संपूर्ण क्षेत्रफल.	वार्डों के वर्तमान परिसीमन के अनुसार वार्ड क्रमांक 1 से 25.	हुजूर	5017.610
2.	रापड़िया	(1) रापड़िया (2) कटारा (3) बर्राई (4) बगली	हुजूर	459.960 415.620 449.530 215.810
3.	कोलूखेड़ी	(5) कोलूखेड़ी	हुजूर	486.600

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	छान	(6) छान (7) मक्सी (8) पिपलियाकुंजनगढ़ (9) भैरोपुरा	हुजूर	303.610 148.519 163.980 228.440
5.	भौरी	(10) भौरी (11) जमोनिया छीर (12) मीरपुर (वीरान)	हुजूर	1484.600 244.230 216.110
6.	दीपड़ी	(13) दीपड़ी (14) समरधा कलियासोत	हुजूर	522.070 324.610
7.	रतनपुर सड़क	(15) रतनपुर सड़क (16) नरेला हनुमंत (17) बिलखिरिया खुर्द (18) गुराड़ीघाट	हुजूर	522.970 276.610 163.350 284.160
8.	नीलबड़	(19) नीलबड़	हुजूर	284.140
9.	लांबाखेड़ा	(20) लांबाखेड़ा	हुजूर	540.450
				योग . . 12752.979

अनुसूची—दो

उपरोक्त अनुसूची—एक में विहित क्षेत्र को सम्मिलित करने के पश्चात् नगरपालिक परिषद्/नगर पालिक निगम, भोपाल की पुनरीक्षित सीमा निम्नानुसार है :—

उत्तर में—ग्राम परवलिया सड़क, बरखेड़ा बोदर, मुबारकपुर, कुराना, डोबरा, बिसनखेड़ी, परेवाखेड़ा, अरवलिया, इस्लामनगर, मोहम्मद नगर उर्फ सत्तीखेड़ी, देवलखेड़ी, पुरामन भावन, पिपलिया बाजखां, घाटखेड़ी, चोपड़ा कलां की दक्षिणी सीमा.

दक्षिण में—ग्राम बोरदा, थुआखेड़ा, पिपलिया बेरखेड़ी, अमरावत कलां, भोजनगर, कोड़ी, खड़बमूलिया, पिपलिया रानी की उत्तरी सीमा.

पूर्व में—ग्राम सेवनिया ओंकारा, अरेड़ी, कानासैया, आदमपुर छावनी, सागोनी कलां, डोबरा जागीर, चोर सागोनी, बासिया, अमझेरा, झागरिया खुर्द, बगरौदा, बंगरसिया की पश्चिमी सीमा.

पश्चिम में—ग्राम नीलबड़, बरखेड़ा सालम, बकानिया, ईंटखेड़ी छाप, लखापुर, मुंगालिया छाप, बरखेड़ा नाथू, कलखेड़ा, बेरखेड़ी बाज्याप्त, मेंडोरी, मेंडोरा, महुआखेड़ा, केकड़िया भानपुर की पूर्वी की सीमा.

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2014

क्र. 29-एफ-1-30-2012-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-30-2012-अठारह-3, दिनांक 28 अगस्त 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.

Bhopal, the 6 September 2014

Not. No. 29-F-1-30-2012-XVIII-3.—In exercise of the power conferred by sub-section (3) of Section 405 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the Governor of Madhya Pradesh, is pleased to include the areas as mentioned in Schedule given below within the limits of the Municipal Corporation, Bhopal, District Bhopal, namely:—

SCHEDULE—I

The area of the village to be included in the limit of Municipal Corporation, Bhopal shall be as follows:—

S. No.	Name of the urban Area/Gram Panchayat	Name of the Villages to be included (whole Revenue village)	Tehsil	Area to be declared (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Whole Area of Nagar Palika, Kolar.	Ward No. 1 to 25 as per latest Delimitation of Wards	Huzur	5017.610
2.	Rapadia	(1) Rapadia (2) Katara (3) Barrai (4) Bagli	-do- -do- -do- -do-	459.960 415.620 449.530 215.810
3.	Kolukheri	(5) Kolukheri	-do-	486.600
4.	Chhan	(6) Chhan (7) Maksi (8) Pipila Kunjangerh (9) Bhairapura	-do- -do- -do- -do-	303.610 148.519 163.980 228.440
5.	Bhour	(10) Bhour (11) Jamonia Chheer (12) Meerpur (Viran)	-do- -do- -do-	1484.600 244.230 216.110
6.	Dipri	(13) Dipri (14) Samardha Kaliasot	-do- -do-	522.070 324.610
7.	Ratanpur Sadak	(15) Ratanpur Sadak (16) Narela-Hanumant (17) Bilkhiriya Khurd (18) Guradighat	-do- -do- -do- -do-	522.970 276.610 163.350 284.160
8.	Neelbad	(19) Neelbad	-do-	284.140
9.	Lambakhera	(20) Lambakhera	-do-	540.450
Total . .				12752.979

SCHEDULE—II

The revised boundary of the Municipal Council/Nagarpalika Nigam, Bhopal after including the area prescribed in Schedule-I above is as follows:—

In the North—Gram Parwalia Sadak, Barkhera Bodar, Mubarakpur, Kurana, Dobra, Bishankhedi, Parevakheda, Arwalia, Islamnagar, Mohammed Nagar Urf Sattikhedi, Devalkhedi, Puraman Bhawan, Pipliya Baazkhan, Ghatkhedi Southern boundary of Chopra Kalan.

In the South—Gram Borda, Thuwakhera, Pipaliya Berkhedi, Amrawat Kalan, Bhojnagar, Kodi, Khadabmulia, Northern boundary of Piplia Rani.

In the East—Gram Sevaniya Onkara, Arhedi, Kanha Saiya, Adampur Chhawani, Sagoani Kala, Dobra Jagir, Chor Sagoani, Basiya, Amjhera, Jhagaria Khurd, Bagroda, Western boundary of Bangrasia.

In the West—Gram Neelbad, Barkhera Salam, Bakania, Itkhedi Chhap, Lakhapur, Mungalia Chhap, Barakhera Nathu, Kalkheda, Bairkhedi Bajyafat, Mendori Mandora, Mahuakheda, Eastern boundary of Kekdiya Bhanpur.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. KATIYA, Dy. Secy.